

This question paper contains 4+2 printed pages]

## HPAS (M)—2015

### GEOLOGY

### Paper II

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 150

Note :— Attempt *Five* questions in all. Question No. 1 is compulsory. All questions carry equal marks. Give suitable sketches wherever necessary.

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1  
अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। जहाँ  
आवश्यक हो उपयुक्त चित्र दीजिए।

1. Write brief notes on any *three* of the following :

- (i) Symmetry of normal class minerals of Hexagonal system
- (ii) Isomorphism and polymorphism

(iii) Chemical composition of magma and type

(iv) Classification of ore deposits

(v) Water pollution

निम्न में से किन्हीं भी तीन पर संक्षिप्त नोट लिखिए :

- (i) हेक्सागोनल समुदाय के सामान्य वर्ग के खनिजों की समस्ति
- (ii) समाकृतिकता और बहुरूपता
- (iii) मेग्मा की रासायनिक संरचना और प्रकार
- (iv) अयस्क भंडार का वर्गीकरण
- (v) जल प्रदूषण ।

2. Describe any two of the following :

(a) Physical and optical properties of Microclene

(b) Petrological microscope

(c) Laws of crystallography.

निम्न में से किन्हीं भी दो का वर्णन कीजिये :

- (क) माइक्रोक्लीन के भौतिक और आॅप्टिकल गुण
- (ख) पेट्रोलौजिकल माइक्रोस्कोप
- (ग) क्रिस्टलोग्राफी के कानून ।

3. Describe any one of the following :

- (a) Classification of sandstones
- (b) Depositional environment of clastic rocks

निम्न में से किसी एक का वर्णन कीजिये :

- (क) बलुआ-पत्थर का वर्गीकरण
- (ख) क्लास्टिक चट्टानों के जमाव के पर्यावरण ।

4. Describe any two of the following :

- (a) Granite
- (b) Pegmatite
- (c) Basalt.

निम्न में से किन्हीं दो का वर्णन कीजिये :

(क) ग्रेनाइट

(ख) पैग्मेटाइट

(ग) बेसाल्ट ।

5. Describe any two of the following :

(a) Types of metamorphisms

(b) Processes of sedimentation

(c) Bowen reaction series.

निम्न में से किन्हीं दो का वर्णन कीजिये :

(क) कायान्तरण की घटना के प्रकार

(ख) अवसादन की प्रक्रियाएँ

(ग) बॉवेन प्रतिक्रिया शृंखला ।

6. Discuss distribution in India of any two of the following :

(a) Copper

(b) Thorium

(c) Coal

(d) Petroleum.

निम्न में से किन्हीं दो के भारत में वितरण पर चर्चा  
कीजिए :

(क) कॉपर

(ख) थोरियम

(ग) कोयला

(घ) पेट्रोलियम ।

7. Discuss in brief on any *two* of the following :

- (a) Mining methods in hard rock areas
- (b) Mining methods in soft rock areas
- (c) Environmental impact of mining.

निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षेप में चर्चा कीजिए :

- (क) हार्ड रॉक क्षेत्रों में खनन के तरीकों
- (ख) नरम रॉक क्षेत्रों में खनन के तरीकों
- (ग) खनन के पर्यावरणीय प्रभाव ।

8. Discuss in brief on any *one* of the following :

- (a) Natural hazards and their mitigation
- (b) Radioactive waste disposal.

निम्न में से किसी एक पर संक्षेप में चर्चा कीजिए :

- (क) प्राकृतिक खतरों और उनके शमन
- (ख) रेडियोधर्मी कचरे के निपटान ।